

भारत सरकार/Government of India
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
Ministry of Development of NE
उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय
North Eastern Council Secretariat
नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग/Nongrim Hills, Shillong-793003
Website : <https://necouncil.gov.in>

No. ADMN-12020/1/2024-ADMN

Date: 1st February, 2024

The North Eastern Council Secretariat is looking for the services of a suitable officer for filling up one (1) post of Director (Tourism and Industries) on deputation (including short term contract) basis. The pay and other terms and conditions of deputation will be

regulated in accordance with DOPT's O&M No.6/8/2009- Estt.(Pay-II) dt.17.06.2010 as amended from time to time. Cadre Authorities/Heads of Departments are requested to forward applications of eligible and willing candidates whose services can be spared on deputation basis immediately so as to reach the undersigned **within 60 days from the date of publication of this advertisement in Employment News**. The details of post, eligibility criteria, job requirement, age limit, qualification and experience required for the post are indicated in **Annexure-I** below. For Application Forms/Curriculum Vitae Proforma (**Annexure-II**) and other necessary details the candidates are advised to visit and download from the NEC website <https://necouncil.gov.in>.

LIST OF ENCLOSURES TO BE ACCOMPANIED WITH THE APPLICATION.

- Application in the prescribed format - **Annexure-II** duly completed, signed by the candidate and countersigned by the Cadre/Appointing authority.
- Attested copies of ACRs for the last 5(five) years duly attested on each page with seal by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India or equivalent.
- Integrity Certificate.
- Vigilance Clearance.
- Major or minor penalty certificate for the last 10 years of his service.
- A certificate to the effect that the particulars furnished by the candidate have been verified and found correct as per service records.
- Cadre clearance certificate.
- Self attested photocopy of educational certificates.

(L. S. Gangte)
Director (Admn.)

North Eastern Council Secretariat
Nongrim Hills, Shillong- 793003
Ph.No.: (0364)-2522647

ANNEXURE-I

1. (a)	Name of the post	Director (Tourism and Industries)
(b)	No. of post	01 (One)
(c)	Scale of pay	Level 13 (Rs.123100 - 215900/-)
(d)	Method of recruitment	Deputation (including short term contract). Officers of the Central Government or the State Governments or the Union Territories Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research institutions or semi-Government or statutory or autonomous bodies:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute or equivalent; and (ii) Ten years' experience in promoting industrial projects, small scale industries or tourism. Note 1.- Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.
(e)	Job requirements	To study and advise on specific programmes and formulate appropriate schemes relating to Banking, Bank Finance, Industries in the North Eastern Region and to assist the State Governments in the region to obtain bank finance facilities for different schemes and execution of schemes for Employment Oriented Industries in the North Eastern Region for establishment of Industries, Entrepreneurship Development Programmes.

Note: Candidate who apply for the above posts would not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

EN 49/23



फा. सं./File No. ए-35020/03/2023-ISTM

भारत सरकार/Government of India

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान
Institute of Secretariat Training & Management

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था/An ISO 9001:2015 Institution)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/Department of Personnel & Training

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions

Date:13th February, 2024

Subject: - Filling up of One (1) vacant faculty post of Joint Director (Financial Management) & Two (2) vacant faculty post of Assistant Director (English Shorthand & Typing) on deputation basis in the Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), New Delhi - reg.

Applications are invited for filling of the following faculty posts on a deputation basis from amongst suitable and eligible officers working under Central Government:

S. No.	Name of the Post	Number of Vacancy	Pay Level in the Pay Matrix	Eligible Category
(i)	Joint Director (Financial Management)	01	Level-12 (Rs.78800-209200)	Officers working under Central Government only
(ii)	Assistant Director (English Shorthand & Typing)	02	Level-8* (Rs. 47600-151100)	

* Officers who have been granted Non Functional Selection Grade (NFSG) in Level 10 are also eligible to apply and on selection he/she will be allowed to retain in that Pay Level.

2. The officer selected shall be entitled to 'training allowance' on their basic pay drawn at such rate as may be determined by the Government of India from time to time.

3. Details of the eligibility conditions for appointment to the vacant posts in ISTM and the prescribed proforma in which applications can be sent may be downloaded from this Department's website: www.persmin.nic.in as well as from the ISTM website: https://www.istm.gov.in/home/other_circular.

4. Applications of only such officers/candidates will be considered which are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the proforma as given in Annexure-II and (ii) Cadre Clearance.

5. The applications of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to **Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (Training), Training, Division, Block-IV, 3rd Floor, JNU (Old) Campus, New Delhi-110067** within a period of 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/रोजगार समाचार.

(Shefali Saraf)

Under Secretary (Estt.)

Telephone:- 26737614

EN 49/26

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान
Aryabhata Research Institute of Observational Sciences

(An Autonomous Institute under DST, Govt. of India)

CORRIGENDUM

Extension of last date for submission of application to the post of Director, ARIES

With reference to the Advertisement No.AO/ DR/2015-ESTT (Volume-II) 1331 dated 20th December, 2023 regarding recruitment of Director, it is here by informed that the last date of submission of application has been extended up to **10th March, 2024** and the last date for the submission of the applications for those applying from far- flung areas shall be **25th March, 2024**.

EN 49/74

Registrar, ARIES

Saha Institute of Nuclear Physics Kolkata


No.SINP/Estt/Advt/02/2024

Engagement of Project Assistant in FRENA on temporary basis

Please log on to the Institute website www.saha.ac.in (Please click on Job Opportunities) for the engagement of Project Assistant in FRENA.

CBC 48135/12/0024/2324

EN 49/62



फाइल संख्या: ए-35020/03/2023-स.प्र.प्र.सं.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय / MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

दिनांक: 13 फरवरी, 2024

सेवा में,

सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) के एक (1) रिक्त संकाय पद और सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) के दो (2) रिक्त संकाय पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (स.प्र.प्र.सं.), नई दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत उपयुक्त और पात्र अधिकारियों में से निम्नलिखित रिक्त संकाय पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु प्रस्ताव रखता है।

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्त संख्या	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	पात्र श्रेणी
1.	संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंधन)	01	लेवल-12 (₹78800-₹209200)	केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी
2.	सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण)	02	लेवल-8* (₹47600-₹151100)	


*ऐसे/ऐसी अधिकारी जिन्हें लेवल 10 में गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) प्रदान किया गया हो, वे भी आवेदन करने के/की पात्र हैं तथा चयन होने की स्थिति में उन्हें उसी वेतन लेवल में प्रतिधारण करने की अनुमति होगी।

2. चयनित अधिकारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित दर के अनुसार प्राप्त अपने मूल वेतन पर 'प्रशिक्षण भत्ता' प्राप्त करने के/की पात्र होंगे/होंगी। पदों के लिए अपेक्षित पात्रता शर्तें, अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य विवरण अनुलग्नक-I-(क), एवं I-(ख) में दिए गए हैं।

3. अनुरोध है कि उपयुक्त और पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (चार प्रतियों में) श्री राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लॉक-IV, तृतीय तल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (पुराना) परिसर, नई दिल्ली-110067 को इंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भिजवा दिए जाएं।

पृष्ठ 2 जारी.....

प्रशासनिक ब्लॉक, ज.ने.वि. परिसर (पुराना) / ADMINISTRATIVE BLOCK, JNU CAMPUS (OLD),
ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली - 110067 / OLOF PALME MARG, NEW DELHI - 110067
वेबसाइट / WEBSITE - <https://www.istm.gov.in>; टेलीफैक्स / FAX - 011-26104183; ई-मेल / E-Mail - istm@nic.in



एक शब्द अर्थ है शान्ति

(2)

4. केवल उन्हीं अधिकारियों/आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनके आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रेषित किए जाएंगे और जिनके साथ अनुलग्नक-II (क) एवं II (ख) में दिए गए प्रोफॉर्मा में (i) जीवनवृत्त (बायोडाटा) (चार प्रतियों में) तथा (ii) संवर्ग अनापत्ति भेजी जाएगी।
5. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा जिनके साथ निर्धारित दस्तावेज नहीं होंगे अथवा जो अन्यथा अपूर्ण या निर्धारित प्रोफॉर्मा में नहीं होंगे, को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस पद पर चयनित होने की स्थिति में अधिकारियों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित कर लिया जाए कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचनाएं उनके सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित कर ली गई हैं और उन्हें सही पाया गया है तथा आवेदन पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर कर दिए गए हैं एवं कार्यालय की मुहर लगा दी गई है। इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
7. कृपया आपके संगठन के विभिन्न एककों में इस परिपत्र का व्यापक परिचालन किया जाए।

भवदीया,

संलग्नक: अनुलग्नक I-(क), I-(ख), II-(क), एवं II-(ख)

शेफाली सराफ / SHEFALI SARAF
अवर सचिव / Under Secretary
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान
Institute of Secretariat Training and Management
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / Department of Personnel & Training
भारत सरकार, नई दिल्ली / Government of India, New Delhi

शेफाली सराफ

(शेफाली सराफ)

अवर सचिव (स्थापना)

दूरभाष संख्या: 26737614

प्रति:

1. श्री राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ब्लॉक-IV, तृतीय तल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (पुराना) परिसर, नई दिल्ली-110067
2. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

1. पदनाम संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंधन)
2. पदों की संख्या 01 (एक)
3. जिस तिथि से पद रिक्त है 22.06.2023
4. वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अननुसचिवीय
5. वेतन बैंड वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (₹78800-₹209200/-) के अनुसार वेतन [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3 : ग्रेड वेतन ₹7600/- सहित ₹15600-₹39100/-]
6. प्रशिक्षण भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से) के अनुसार।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित वर्तमान प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया **चार वर्ष** से अधिक नहीं होगी।
8. पद से जुड़े कार्यों का संक्षिप्त विवरण
 - (i) केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के/की वरिष्ठ/पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के/की अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निर्देशित करना।
 - (ii) प्रशिक्षण सामग्री, मामला अध्ययन आदि तैयार करना।
 - (iii) ई-कंटेंट, अनुदेश की रूपरेखा और पाठ्यक्रम की रूपरेखा को विकसित करना।
 - (iv) प्रशिक्षण सत्र का संचालन करना, अनुसंधान गतिविधियां, परामर्श कार्य।
 - (v) प्रशासनिक कार्यों एवं प्रशिक्षण मामलों में, जो भी सौंपा जाए, संस्थान के/की निदेशक की सहायता करना।
9. वेतन और भत्ते प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने मूल संवर्ग/संगठन में प्राप्त वेतन के अनुसार मूल वेतन एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल

वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से) के अनुसार प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने के/की पात्र होंगे/होंगी।

10. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और पात्रता

प्रतिनियुक्ति द्वारा

(क) केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे/ऐसी अधिकारी:-

(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन ₹6600/- सहित ₹15,600-₹39,100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

अनिवार्य:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और

(ii) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र संबंधी तकनीकों तथा विधियों के दो वर्ष के प्रशिक्षण अनुभव सहित दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री;

11. आयु

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (स.प्र.प्र.सं.) में संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) के पद हेतु आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य प्रपत्र

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित किए जाने वाली अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
अर्हताएं- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और	(क) अर्हता
अनुभव- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र संबंधी तकनीकों तथा विधियों के दो वर्ष के प्रशिक्षण अनुभव सहित दस वर्ष का अनुभव।	(ख) अनुभव
वांछनीय	वांछनीय
अर्हताएं: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री;	(क) अर्हता
अनुभव:	(ख) अनुभव
<p>5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए यह कॉलम बढ़ाया जाना अपेक्षित है।</p> <p>5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में आवेदनकर्ता द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।</p>	
6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।	

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* **महत्वपूर्ण:** एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-

क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर धारित पद का नाम और वेतन

--	--

<p>9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित किए जाएं।</p> <p>9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी मामलों में दी जाए जहां एक व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा हो।</p>	
--	--

<p>10. यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।</p>	
--	--

<p>11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)</p> <p>क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य</p>	
--	--

<p>12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के लिए फीडर हैं।</p>	
--	--

<p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।</p>	
--	--

14. वर्तमान में प्राप्त प्रतिमाह कुल परिलब्धियां
--

वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/स्तर में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
--	------------	-----------------

--	--	--

15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए हों, को संलग्न करें:

मूल वेतन एवं वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	कुल परिलब्धियां

16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें।

(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है)

(नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)

16. ख. उपलब्धियां:

आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना का उल्लेख करें:

- (i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं
- (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा
- (iii) व्यावसायिक निकायों/ संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्ध तथा;
- (iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट
- (v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है
- (vi) कोई अन्य सूचना।

(नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)	
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे/रही हैं।</p> <p># (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पावधि संविदा के पात्र हैं।)</p>	
<p># (रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का विशेष उल्लेख होने की स्थिति में ही 'एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' के विकल्प उपलब्ध हैं।)</p>	
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही है तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल आईडी _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्यौरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)

अनुलग्नक-II-(क)

1. पदनाम : सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण)
2. पदों की संख्या : 02 (दो) (रिक्ति की तिथि - 01.01.2021)
3. वर्गीकरण : सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतन बैंड : [वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (₹47600-₹151100/-) के अनुसार वेतन]
वेतन बैंड-2: ग्रेड वेतन ₹4800/- सहित ₹9300-₹34,800/-
5. प्रशिक्षण भत्ता : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से) के अनुसार।
6. प्रतिनियुक्ति की अवधि : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित वर्तमान प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया **तीन वर्षों** से अधिक नहीं होगी।
7. पद से जुड़े कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व (i) केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के/की वरिष्ठ/पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के/की अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निर्देशित करना।
(ii) प्रशिक्षण सामग्री, मामला अध्ययन आदि तैयार करना।
(iii) ई-कंटेन्ट, अनुदेश की रूपरेखा और पाठ्यक्रम की रूपरेखा को विकसित करना।
(iv) प्रशिक्षण सत्र का संचालन करना, अनुसंधान गतिविधियां, परामर्श कार्य।
(v) प्रशासनिक कार्यों एवं प्रशिक्षण मामलों में, जो भी सौंपा जाए, संस्थान के/की निदेशक की सहायता करना।
8. वेतन एवं भत्ते प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने मूल संवर्ग/संगठन में प्राप्त वेतन के अनुसार मूल वेतन एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल

वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से)
के अनुसार प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने के/की पात्र होंगे/होंगी।

9. पद के लिए अपेक्षित प्रतिनियुक्ति द्वारा:-

अर्हताएं, अनुभव और
पात्रता

(I) केंद्रीय सचिवालय सेवा के समूह 'ख' अधिकारी; या

(II) केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक:-

क.(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद
धारण किए हुए/ हुई हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन
₹4600 सहित ₹9300-₹34800, वेतन मैट्रिक्स के संशोधित
वेतन लेवल 7 (वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन ₹4600 सहित ₹9300-
₹34800) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात
उस ग्रेड में दो वर्षों की सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हों:

अनिवार्य :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री;

(ii) प्रभारी (डेस्क) अधिकारी के लिए पुनःप्रशिक्षण योजना के तहत
पाठ्यक्रम अथवा आशुलिपि में उच्च या निम्न श्रेणी लिपिक के
प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए
(व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) के साथ-साथ सैद्धांतिक (थ्योरी) को भी
कवर करते हुए)।

10. आयु

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (स.प्र.प्र.सं.) में सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) के पद हेतु आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रपत्र

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथा उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं/अनुभव
क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन ₹4600 सहित ₹9300-₹34800, वेतन मैट्रिक्स के संशोधित वेतन लेवल 7 (वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन ₹4600 सहित ₹9300-₹34800) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दो वर्षों की सेवा की है; और	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और	
प्रभारी (डेस्क) अधिकारी के लिए पुनःप्रशिक्षण योजना के तहत पाठ्यक्रम अथवा आशुलिपि में उच्च या निम्न श्रेणी लिपिक के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए	

(व्यावहारिक (पैक्टिकल) के साथ-साथ सैद्धांतिक (थ्योरी) को भी कवर करते हुए)।

5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय **प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा** भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए यह कॉलम बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में **आवेदनकर्ता द्वारा** वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।

6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* **महत्वपूर्ण:** एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक
8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर			
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-			
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर धारित पद का नाम और वेतन
<p>9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित किए जाएं।</p> <p>9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी मामलों में दी जाए जहां एक व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा हो।</p>			
10. यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।			
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण:			

<p>कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)</p> <p>क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य</p>	
<p>12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के लिए फीडर हैं।</p>	
<p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।</p>	

14. वर्तमान में प्राप्त प्रतिमाह कुल परिलब्धियां

वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/स्तर में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए हों, को संलग्न करें:

मूल वेतन एवं वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	कुल परिलब्धियां

<p>16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है) (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>	
<p>16. ख. उपलब्धियां: आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना का उल्लेख करें: (i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा (iii) व्यावसायिक निकायों/ संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्ध तथा; (iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट (v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है (vi) कोई अन्य सूचना। (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>	
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे/रही हैं। # (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पावधि संविदा के पात्र हैं।)</p>	
<p># (रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का विशेष उल्लेख होने की स्थिति में ही 'एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' के विकल्प उपलब्ध हैं।)</p>	
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही है तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल आईडी _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्यौरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)



फा.सं / File No.: A-35020/03/2023-ISTM

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय / MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

Date: 13th February, 2024

To

The Secretary of all Ministries/ Departments of Government of India
(As per standard list)

Subject: - Filling up of One (1) vacant faculty post of Joint Director (Financial Management) & Two (2) vacant faculty post of Assistant Director (English Shorthand & Typing) on deputation basis in the Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), New Delhi – reg.

Madam/Sir,

I am directed to say that the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi proposes to fill up the following vacant faculty posts on a deputation basis from amongst suitable and eligible officers working under Central Government.

S. No.	Name of the Post	Number of vacancy	Pay level in the pay Matrix	Eligible Category
(i)	Joint Director (Financial Management)	01	Level-12 (Rs. 78800-209200)	Officers working under Central Government only
(ii)	Assistant Director (English Shorthand & Typing)	02	Level-8* (Rs.47600-151100)	

*Officers who have been granted Non Functional Selection Grade (NFSG) in Level 10 are also eligible to apply and on selection he/she will be allowed to retain in that pay Level.

2. The officer selected shall be entitled to '**training allowance**' on their basic pay drawn at such rate as may be determined by the Government of India from time to time. The eligibility conditions, qualifications and experience required for the post and other details are given in **Annexure-I-A & I-B**.

3. It is requested that applications (in quadruplicate) of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to **Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (Training) Training Division, Block-IV, 3rdFloor, JNU (OLD) Campus, New Delhi-110067** within a period of **60 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News/**रोजगार समाचार**.

Continue page 2..

प्रशासनिक ब्लॉक, ज.ने.वि. परिसर (पुराना) / ADMINISTRATIVE BLOCK, JNU CAMPUS (OLD),
ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली - 110067 / OLOF PALME MARG, NEW DELHI - 110067
दूरभाष / TELEPHONE - 011-26104038; टेलीफैक्स / FAX - 011-26104183

(2)

4. Applications of only such officers/candidates will be considered which are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the proforma as given in **Annexure-II-A & II-B** and (ii) Cadre Clearance.

5. Applications received after the closing date or without prescribed documents or otherwise found incomplete or not in the prescribed proforma are liable to be rejected. Officers in case of selection for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

6. Before forwarding the applications, Competent Authority must certify that information furnished by the applicants are verified with their Service record and found correct and should also countersign the application with the office seal. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be relieved of his/her duties.

7. This may please be given wide circulation in various units of your organization.

Yours faithfully,

Encl.: Annexure I-A, I-B, II-A & II-B

शेफाली सराफ / SHEFALI SARAF
अवर सचिव / Under Secretary
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान
Institute of Secretariat Training and Management
कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग / Department of Personnel & Training
भारत सरकार, नई दिल्ली / Government of India, New Delhi


(Shefali Saraf)

Under Secretary (Estt.)
Telephone:-26737614

Copy to:

1. Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (Training), Training Division, DoPT, Block-IV, 3rdFloor, JNU(OLD) Campus, New Delhi-110067
2. NIC, DoPT with request to upload the same on DoPT's website.

ANNEXURE-I-A

1. Name of Post : Joint Director (Financial Management)
2. Number of posts : 01 (One)
3. Date from which vacant : 22-06-2023
4. Classification : General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5. Pay Band : Pay in the Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix
[Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay of Rs.7600]
6. Training Allowance : At such rate (at present @12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
7. Period of deputation : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**.
8. Brief Job description of the post : (i) To schedule, organize and direct training programmes for senior/supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ UTs/ PSUs/ Autonomous Bodies etc.
(ii) to develop training materials, case studies etc.
(iii) to develop e-contents, instruction design and curriculum design.
(iv) to conduct training session, Research activities, Consultancy work.
(v) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters as may be assigned.
9. Pay & Allowances : A deputationist shall be entitled to his/her basic pay drawn in his/ her parent cadre/organization and training allowance at such rate (at present @12%) on basic pay as may be determined by the Government of India from time to time.
10. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post : **By Deputation**
A. a) Officers under the Central Government: -
(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-3 ₹15600-39100 plus Grade pay Rs.6600)

Level-11 in 7th CPC pay matrix. or equivalent in the parent cadre or Department; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience: -

Essential:

(i) Bachelor's degree from a recognised university; and

(ii) Ten years' experience including two years teaching experience of techniques and methods in the area of financial management in Administrative Training Institute or Central Training Institutes.

Desirable:

(i) Master's Degree from a recognized university;

11. Age

Not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.

**APPLICATION FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR (FININCAIL MANAGEMENT) IN
ISTM**

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
Essential	Essential
Qualification: Bachelor's degree from a recognised university; and	A) Qualification
Experience:- Ten years' experience including two years teaching experience of techniques and methods in the area of financial management in Administrative Training Institute or Central Training Institutes	B) Experience
Desirable	Desirable
Qualification: Master's Degree from a recognized university;	A) Qualification
Experience	B) Experience
<p>5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.</p> <p>5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.</p>	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views	

confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	* Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting experience required for the post applied for

* **Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.

<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>		
<p>10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.</p>		
<p>11. Additional details about present employment:</p> <p>Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others 		
<p>12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.</p>		
<p>13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale</p>		
<p>14. Total emolument per month now drawn</p>		
<p>Basis Pay in the PB/Level in the Pay Matrix</p>	<p>Grade Pay</p>	<p>Total Emoluments</p>
<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the</p>		

following details may be enclosed.		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post.</p> <p>(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>		
<p>16.B Achievements:</p> <p>The candidates are requested to indicate information with regard to;</p> <p>(i) Research publications and reports and special projects</p> <p>(ii) Awards / Scholarships / official Appreciation</p> <p>(iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and;</p> <p>(iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation</p> <p>(v) Any research/ innovative measure involving official recognition</p> <p>(vi) any other information.</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>		
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short Term Contract)</p>		
<p># (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>		
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address_____

Date_____

Email ID_____

Contact Number_____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Annexure – II- A

1. Name of Post : Assistant Director (English Shorthand & Typing)
2. Number of posts : 02 (Two) (Date of Occurrence of vacancy – 01.01.2021)
3. Classification : General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
4. Pay Band : Pay in the Level-08 (Rs47600-151100) in the Pay Matrix. [Pre revised PB-2: Rs.9300-34800 with Grade Pay Rs.4800]
5. Training Allowance : At such rate (at present @12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
6. Period of deputation : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **three years**.
7. Duties and responsibilities of the post :
 - (i) To schedule, organize and direct training programmes for senior/supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ UTs/ PSUs/ Autonomous Bodies etc.
 - (ii) to develop training materials, case studies etc.
 - (iii) to develop e-contents, instruction design and curriculum design.
 - (iv) to conduct training session, Research activities, Consultancy work.
 - (v) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters as may be assigned.
8. Pay & Allowances : A deputationist shall be entitled to his/her basic pay drawn in his/ her parent cadre/organization and training allowance at such rate (at present @12%) on basic pay as may be determined by the Government of India from time to time.
9. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post :

By Deputation

 - (I) Group 'B' Officers of the Central Secretariat Service; or
 - (II) Stenographers under Central Government: -
 - (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with Two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4600 revised Pay Level 07 of the Pay Matrix (pay band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay Rs.4600) or equivalent in the parent cadre or Department; and
 - (B) Possessing the following educational qualifications:

- (i) Degree of ^a recognised University; and
- (ii) Must have successfully completed a course under the Re-training scheme for Desk officer or a course for training Upper or Lower Division Clerk in Stenography (Covering theory as well Practical).

10. Age

Not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.

APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (ENGLISH SHORHAND & TYPING) IN ISTM

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with Two years' service in the Level rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4600 revised Pay Level 07 of the Pay Matrix (pay band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay Rs.4600) or equivalent in the parent cadre or Department; and	
Degree of recognised University; and	
Must have successfully completed a course under the Re-training scheme for Desk officer or a course for training Upper or Lower Division Clerk in Stenography (Covering theory as well practical).	
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.	
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and	

subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	* Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting experience required for the post applied for

* **Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial	b) Period of appointment	c) Name of the parent office/organization to	d) Name of the post and Pay of the post

appointment	deputation/contract	which the applicant belongs.	held in substantive capacity in the parent organisation.
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			
<p>10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.</p>			
<p>11. Additional details about present employment:</p> <p>Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>g) Central Government h) State Government i) Autonomous Organisation j) Government Undertaking k) Universities l) Others</p>			
<p>12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.</p>			
<p>13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale</p>			
<p>14. Total emolument per month now drawn</p>			
Basis Pay in the PB/Level in the Pay		Grade Pay	Total Emoluments

Matrix		
<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.</p>		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post.</p> <p>(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>		
<p>16.B Achievements:</p> <p>The candidates are requested to indicate information with regard to;</p> <p>(i) Research publications and reports and special projects</p> <p>(ii) Awards / Scholarships / official Appreciation</p> <p>(iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and;</p> <p>(iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation</p> <p>(v) Any research/ innovative measure involving official recognition</p> <p>(vi) any other information.</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>		
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short Term Contract)</p>		

# (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address _____

Date _____

Email ID _____

Contact Number _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii. His/ Her integrity is certified.
- iii. His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv. No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)